

राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने भेजी आम की सौगात
पत्र लिखकर राज्यपाल को आम निर्यात के लिए किए गये प्रयासों से कराया अवगत

लखनऊ: 26 जुलाई 2017

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौगात में फलों के राजा कहे जाने वाले 'नवाब ब्राण्ड' के आम भेजे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से आम और पत्र लेकर कृषि निर्यात, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती स्वाती सिंह ने राज्यपाल से भेंट की।

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि उत्तर प्रदेश के आम की देश और विदेशों में भी प्रचुर मांग है। राज्य सरकार आम की लोकप्रिय एवं अन्य अनेकानेक देशी प्रजातियों को मँगो पैक हाउस मलिहाबाद लखनऊ एवं सहारनपुर में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) एवं पैकिंग कर तैयार 'नवाब ब्राण्ड' आम के द्वारा भी समृद्ध करने के लिए प्रयास कर रही है। किसानों की आय को आगामी पांच वर्ष में दोगुना करने के लिए एवं किसानों को बेहतर मूल्य व उत्कृष्ट श्रेणी की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मण्डी की व्यवस्थाओं में आमूल-चूल परिवर्तन करने वाले 'नए माॅडल एक्ट' को प्रदेश में शीघ्रताशीघ्र अपनाकर 'एक देश एक बाजार' की परिकल्पना को साकार करने के लिए तत्पर है।

उल्लेखनीय है कि राज्यपाल ने अवध आम उत्पादक एवं बागवानी समिति मलिहाबाद लखनऊ के पदाधिकारियों का एक अनुरोध पत्र मुख्यमंत्री को भेजा था जिसमें आम उत्पादकों की कुछ मांगें और समस्याएं थीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के पत्र का जवाब देते हुए आश्वासन दिया था कि अनुरोध पत्र में उल्लिखित समस्याओं के शीघ्र निदान हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये जायेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश से आम उत्पादकों की सिंचाई एवं विद्युत आपूर्ति सहित अन्य समस्याओं का भी समाधान हुआ था।

अंजुम/ललित/राजभवन (279/34)

